

August 01, 2021

**Listing Department** 

Bombay Stock Exchange Limited P J Towers, Dalal Street Mumbai – 400 001 Scrip Code: 523558

Subject:

Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 47 of SEBI (Listing

Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (vernacular), Delhi Edition on August 01, 2021 related to intimation of 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Company which will be held through video conferencing or other audiovisual means (OAVM) facility on September 04, 2021.

The same is for your information and record.

Thanking You,

For SWISS MILITARY CONSUMER GOODS LIMITED

COMPANY SECRE

**FE SUNDAY** 



### **NAVI AMC LIMITED**

(FORMERLY KNOWN AS ESSEL FINANCE AMC LIMITED)

Registered Office: Peerless Mansion, 1, Chowringhee Square, Kolkata-700069 Tel: 033 40185000; Fax: 033 40185010; Toll free no. 1800 103 8999. Website: www.navimutualfund.com, Email: mf@navi.com CIN: U65990WB2009PLC134537

NOTICE CUM ADDENDUM (No. 19 of 2021-22)

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI circular no. Cir/ IMD/ DF/ 16 / 2011 dated September 8, 2011 and SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018, the Annual Report of the schemes of Navi Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2021 has been hosted on the website of Navi AMC Limited (the AMC) viz. www.navimutualfund.com and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com.

Unit holders can request for physical or electronic copy of Annual Report through any of the following means:

a. Telephone: Give a call at our Contact Centre at 1800-103-8999

c. Letter: Submit a letter at the registered office of the AMC.

b. Email: Send an email to mf@navi.com

Place: Mumbai

Date : July 31, 2021

For Navi AMC Limited

(Formerly Essel Finance AMC Limited) (Investment Manager to Navi Mutual Fund) (Formerly Essel Mutual Fund)

Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

# **MASTER TRUST LIMITED**

Regd. Office: SCO 19, Master Chambers, Feroze Gandhi Market, Ludhiana (Punjab) (CIN: L65991PB1985PLC006414), E-mail Id: secretarial@mastertrust.co.in, website: www.mastertrust.co.in, Tele. No.: 0161-5043500 / 5043513

> STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2021

Sr.	Particulars		Standalone		Consolidated			
no.		Quarter ended 30/06/2021 Un-audited	Quarter ended 30/06/2020 Un-audited	Year Ended 31/03/2021 Audited	Quarter ended 30/06/2021 Un-audited	Quarter ended 30/06/2020 Un-audited	Year Ended 31/03/2021 Audited	
1	Total Income from Operations (net)	40.5	23.8	139.5	732.3	436.2	2248.0	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional Items)	19.8	3.9	18.6	146.9	67.6	429.0	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	19.8	3.9	18.6	146.9	67.6	429.0	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	17.8	3.3	16.9	120.0	55.5	343.7	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	86.1	54.3	348.5	80.7	57.6	416.3	
6	Equity Share Capital	109.2	109.2	109.2	109.2	109.2	109.2	
7	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) Basic & Diluted	0.8	0.2	0.8	5.5	2.6	15.8	

(i) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of Bombay Stock Exchange Limited (BSE), www.bseindia.com and Company's website, www.mastertrust.co.in

(ii) The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 30th July, 2021 and approved by the Board of Directors at its meeting held on the same date.

For Master Trust Limited

Place: Ludhiana Dated: 30.07.2021 (Rajinder Kumar Singhania) Director

#### JULLUNDUR MOTOR AGENCY (DELHI) LIMITED CIN: L35999HR1998PLC033943

Regd. Off: 458-1/16, Sohna Road, Opp. New Court, Gurugram - 122 001, Haryana, India Email ID: info@jmaindia.com; Website: www.jmaindia.com; Ph. No.: 0124-3019210, 211, Fax: 0124-4233868

NOTICE OF THE 72ND ANNUAL GENERAL MEETING. BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Seventy Second (72nd) Annual General Meeting ("AGM") of the members of Juliundui Motor Agency (Delhi) Limited will be held on Tuesday, 24th August, 2021 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), for which purpose the registered office of the Company situated at 458-1/16, Sohna Road Opposite New Court, Gurugram- 122001, Haryana, INDIA, shall be deemed as the venue for the Meeting and the proceedings of AGM shall be deemed to have taken place thereat, to transact the Businesses as set out in the Notice of AGM. 72nd Annual Report containing Notice of AGM, Financial Statements (Standalone & Consolidated), Reports of Auditors and

Board's thereon, and other documents along with remote e-voting details have been dispatched to all the members at their email address registered with Company/RTA/Depository.

In case you have not registered your email ID with the Company/RTA/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for FY 2020-21 and login details for e-voting

Send a signed request to Registrar and Transfer Agents of the Company, i.e. MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number. Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of AADHAR Card) for registering their email address.

Please also send your bank detail with original cancelled cheque to RTA i.e. MAS Services Limited at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 110020, alongwith letter mentioning folio no., for dividend paymen by NACH, if declare by the Company

PLEASE REGISTER/ UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 17.08.2021

Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DF Holding Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH, if declare by the Company. PLEASE REGISTER/ UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 17.08.2021

Notice of 72nd AGM, Annual Report 2020-21 and Instruction(s) for E-Voting and Joining of AGM through Video Conferencing are available on Company's website i.e. www.jmaindia.com and on CDSL's website www.evotingindia.com and on the website of e National Stock Exchange i.e. <u>www.nseindia.com</u>. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Notice is hereby given that in compliance with the provisions of Section 108 of the Act and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations 2015), the Company has offered e-voting facility for transacting all the business set forth in the Notice of AGM to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Friday, 20th August, 2021 (09:00 am) and ends on Monday, 23rd August, 2021 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, 17th August, 2021, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 17th August, 2021 may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. M/s. Vijay K. Singhal & Associates; Company Secretaries, (Shri Vijay K. Singhal, Proprietor), have been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the email sent with the Notice of the AGM and also available on the website of the Company i.e. www.jmaindia.com.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, 2015 that the Company has fixed Tuesday, 17th August, 2021 as cut-off Date for the purpose of determining entitlement of members for Final Dividend of INR 02/- (i.e. 100%) per equity share of INR 02/- each, fully paid-up, for the Financial Year 2020-21, if declared and also the Register of Member and Share Transfer Books of the Company shall remain close from Wednesday, 18th August, 2021 to Tuesday, 24th August, 2021 (both days inclusive) for taking record of the Members of the Company for the purpose of 72nd Annual General Meeting.

Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its circular No. CIR/MRD/DP/ 10/2013 dated March 21, 2013 has stipulated that all listed companies shall use approved electronic mode of payment viz., ECS, NACH, NEFT/RTGS etc., for the purpose of making payments to the shareholders. All the shareholders are requested to immediately update their Bank Account No. with 9-digit MICR Code (either Bank Account No. or 9-digit MICR No. or both), if the same has not been updated with the Company's share transfer agent or the depository participant, as the case may be. As per Circular No. NPCI / 2016-17/NACH 1203 dated December 08, 2016, NPCI has stipulated that for processing of electronic payment, account number should be of minimum 10 digits and 9 digits in case of Indian Bank. Account number with less than 10 digits or 9 digits in case of Indian bank will be rejected. You are accordingly requested to please update your bank details as per NPCI rules for electronic payment of dividend in line with the above said circular.

In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or contact at toll free number: 1800225533, Email helpdesk.evoting@cdslindia.com. Alternatively, they can contact to Mr. Deepanshu Rastogi, Assistant Manager, Mas Services Limited, RTA at investor@masserv.com or on telephone number: 011-26387281/82/83.

Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited

Ramkesh Pal Company Secretary (M. No.: A40120)

For and on behalf of

**RELIANCE** 

HOME FINANCE

**Particulars** 

A RELIANCE CAPITAL COMPANY

Quarter

Year ended

Extract from the Unaudited Financial Results of Reliance Home Finance Limited for the guarter ended June 30, 2021 (₹ in crore, except per share data)

Quarter

No.		ended 30-Jun-21 Unaudited	31-Mar-21 Audited	ended 30-Jun-20 Unaudited
1	Total Income from Operations	129.50	803.27	243.84
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item)	(435.64)	(2,302.89)	(244.45)
3	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item)	(287.53)	(1,519.90)	(161.34)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(287.43)	(1,519.70)	(161.56)
5	Equity Share Capital	485.06	485.06	485.06
6	Earnings Per Share (Basic & Diluted (Face Value of ₹10/- each)) (not annualised)	-		
	(i) Basic (₹)*	(5.93)	(31.33)	(3.33)
	(ii) Diluted (₹)*	(5.93)	(31.33)	(3.33)

2. The above is an extract of the detailed format of the quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchanges on July 31, 2021 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Company's website i.e. www.reliancehomefinance.com and on the website of the Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

July 31, 2021

SI.

Reliance Home Finance Limited

CIN:L67190MH2008PLC183216 Regd. Office: The Ruby, 11th Floor, North-West Wing.

Plot No.29, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai 400 028

Tel.: +91 22 6838 8100 Fax.: +91 22 6838 8360

E-mail: rhfl.investor@relianceada.com Website: www.reliancehomefinance.com

**POONAWALLA FINCORP** 

#### POONAWALLA FINCORP LIMITED (FORMERLY, MAGMA FINCORP LIMITED)

CIN: L51504WB1978PLC031813

Regd. Office: "Development House", 24, Park Street, Kolkata - 700 016, Phone: 033-4401 7350 Email id: shabnum.zaman@poonawallafincorp.com, Website: www.poonawallafincorp.com

# NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

In view of the on-going Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) had vide General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, the General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, the General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and General Circular No. 10/2021 dated 23 June 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), permitted the holding of AGM/EGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) including passing of certain items through Postal Ballot without convening a General Meeting. In compliance with the said Circulars and the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements)

Regulations 2015, the Notice of AGM/EGM/Postal Ballot shall be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Depositories/Share Transfer Agent/Company. Members may note that the Notice of the AGM/EGM/Postal Ballot as and when issued will be made available on the Company's website (www.poonawallafincorp.com) and can also be accessed on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), where the Equity shares of the Company are listed.

Please keep your updated email ID registered with the RTA/your Depository Participant to receive timely communications. For shareholders who have not yet updated their email address, the process of registration is provided below for your ready reference:

Physical Holding	Send a mail to the Registrars & Share Transfer Agent (RTA) of the Company, Niche Technologies Pvt. Ltd. at nichetechpl@nichetechpl.com and ukundu@poonawallafincorp.com respectively along with the scanned copy of the request letter duly signed by sole/first shareholder quoting the Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self- attested scanned copy of PAN Card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) for registering email address.
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address. In case of any queries/difficulties in registering the e-mail address, Members may write to ukundu@poonawallafincorp.com.

For Poonawalla Fincorp Limited (Formerly, Magma Fincorp Limited)

> Shabnum Zaman Company Secretary ACS No. 13918

(S.No. 117 & 118), Madhav Baug, Shivtirth Nagar, Kothrud, Pune - 411038. Ph.: 020 2543 4617, Email id: cs@univastu.com, Website: www.univastu.com, CIN-L45200PN2009PLC1333864

Registered office: Bunglow No. 36/B, C.T.S. No. 994 & 945,

Place : Kolkata

Date : 31 July, 2021



NOTICE OF 12<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting ("AGM") of the members of UNIVASTU INDIA LTD. ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, 24 August 2021, at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, in compliance of provisions of the Companies Act, 2013, ('the Act') and Rules thereof read with the Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (the Regulations), read with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, (hereinafter referred to as 'SEBI Circulars') to transact the businesses as set forth in the Notice of AGM

Further notice is also hereby given pursuant to the provisions of Regulation 42 of the Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 18 August 2021 to Tuesday, 24 August 2021, (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars; the electronic copy of the Notice of 12th AGM and the Annual Report for the Financial year 2020-21 of the Company have been sent only through electronic mode to all those Members whose e-mail address(es) are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (R & T Agent) viz. Big Share Services Private Limited or with their respective Depository Participant(s). The notice of the 12" AGM along with the Annual Report for the Financial year 2020-21 are also available on the Company's website <u>www.univastu.com</u> and on the website of the Stock Exchange on which the Company's shares are listed viz. National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com and website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards (SS-2) on General Meetings and Regulation 44 of the Regulations, the Company is providing the facility to its members holding shares on 17 August 2021, being the cutoff date to exercise their right to vote on all resolutions as set form in the Notice of AGM. Members can vote either through remote e-voting or e-voting at the AGM. Instructions for remote e-voting, e-voting at the time of AGM. The Company has engaged services of NSDL to provide remote e-voting facility. The details of remote evoting are as under: Date of completion of dispatch of Notice of AGM along with Annual report for the FY 2020-21; 31 July 2021;

2. The remote e-voting period commences on Friday, 20 August 2021 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, 23 August 2021 at 5.00 p.m. (IST).

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date, i.e., 17 August 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@univastu.com or vinayak@bigshareonline.com. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" option available on www.evoting.nsdl.com. A member can also use OTP (One time password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL

The members are also informed that: a. The remote e-voting shall not be allowed beyond Monday, 23 August 2021 at 5.00 p.m.

b. The members attending the AGM through VC/OAVM facility, who have not casted their vote by remote e voting shall be able to vote at the AGM.

c. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

d. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date, i.e., 17 August 2021, shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or e-voting at the AGM.

e. The procedure of electronic voting and/or attending the AGM through VC/OAVM facility is provided in the Notice of AGM. f. The manner of registration of e-mail addresses of those members whose email addresses are not

registered with the Company / R & TAgent/DP is available in the Notice of AGM. Members, who need assistance before or during the AGM or in case of any gueries, may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) on NSDL website or contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800-222-990 or contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager – NSDL at saritam@nsdl.co.in/022-24994890.

> By order of the Board of Directors For Univastu India Limited

Place: Pune Date: 01.08.2021

**Amruta Sant Company Secretary** 

SALE NOTICE (Extension of date of e-auction) SURYA PHARMACEUTICAL LIMITED (In Liquidation) Regd Office: 1596, FF, Bhagirath Palace, Chandni Chowk, Delhi 110006

n the Sale Notice published on 13.07.2021 for the sale of assets under the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 and regulations framed thereunder, the date of E-auction was mentioned as 02.08.2021 which is now rescheduled on Thursday, 12.08.2021 from 11.00 a.m. to 02:00 p.m. (With unlimited extension of 5 minutes each). Accordingly the date of submission of documents and EMD which was 31.07.2021 is now revised to 10.08.2021. The details of assets & all other terms and conditions as mentioned in sale notice dated 13.07.2021 & E auction Process Information Document remains unchanged. The complete details of the E-auction are available on http://embeeip.com and on the website of the e-auction service provider https://ncltauction.auctiontiger.net HARVINDER KUMAR JATANA

LIQUIDATOR IN THE MATTER OF SURYA PHARMACEUTICAL LIMITED Regn. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00418/2017-18/11193 Correspondence Address: SCO 2935-36, First Floor, Sector-22C, Chandigarh-160022 Email: ip.suryapharma@gmail.com

Regd. Address: #206 Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh-160101 Email: hkj\_jatana@yahoo.co.in , Ph. No. 9814583727.

MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LTD.



Maha Metro, Greenest Metro

Date: 31.07.2021

महा मेदी

Place: Chandigarh

Pune - 411001. Telephone: 020-26051072 E-mail: tenders.pmrp@mahametro.org | www.punemetrorail.org

Tender Notice No. P1PD-05/2021 Dated: 01.08.2021 Name of the Work: Licensing of Co-Branding Rights of Selected Ten (10) Metro Stations of Reach-01 & Reach-02 of Pune Metro Rail Project for a period of 05 years.

Interested bidders may visit Pune Metro Rail website www.punemetrorail.org or download the bidding documents and obtain further details regarding the tender from our e-tender portal https://mahametrorall.etenders.in from 16:00 Hrs. on 02/08/2021.

Cost of Documents: ₹ 47,200/- (INR Forty Seven Thousand Two Hundred only) incl.

**Executive Director** (Procurement & Contracts), MAHA-METRO

PUBLIC NOTICE

yards, situated at Village Jassaran, Tehsil Amloh, District Fatehgarh Sahib.

It is for the information to the General Public that Sh. Sanjay Choudhary s/o Sh. Amrit Lal AND Gurdev Overseas Limited, rs/o Shri Ram Plaza, 2-A, C-108, Phase-V, Focal Point, Ludhiana are owners of property/godown measuring 8B-9B-19B or 8497.5 sq.

That the previous original title deed wasika no.1211 dated 17/08/2005 has been lost and D.D.R. to this effect has also been lodged with Police Station, Gobindgarh, bearing Unique ID No.24 dated 03/02/2009. The previous original title deeds bearing wasika no.574 dated 08/06/2000 and wasika No.1746 dated 22/11/2004 also lost and DDR to this effect also been lodged with Police Station, Gobindoarh Mandi bearing G. D. No.025 dated 31.07.2021

The previous owners have not created any charge, lien, mortgage, gift, exchange etc. in fayour of any person, bank, company, firm, financial institution etc. on the above mentioned property by deposit of the said lost sale deeds.

Now the present owners Sh. Sanjay Choudhary s/o Sh. Amrit Lal and Gurdev Overseas Limited intends to create equitable mortgage on the property in favour of State Bank of India, S.M.E. (Overseas) Branch, Ludhiana. If anybody has any objection to the same, he/she may contact State Bank of India, S.M.E. (Overseas) Branch, Ludhiana (M.No.8003893777) within 10 days from the date of this publication, failing which the bank will not entertain any objections. Through this notice, the owners requests the General Public that if anybody founds the

above referred original sale deeds, he/she may please send the same to the owner at the following address:

Sh. Sanjay Choudhary s/o Sh. Amrit Lal

R/o 17-A, New Rajguru Nagar, Ludhiana M.No.9814600909

SWISS MILITARY CONSUMER GOODS LIMITED (Erstwhile known as Network Limited) CIN: L51100DL1989PLC034797

Regd. Office: W-39, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi- 110020 Tel: 011-41067060 | Email: investor@swissmilitaryshop.com website: www.swissmilitaryshop.com INFORMATION REGARDING 32" ANNUAL GENERAL MEETING

TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM) NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the

members of the Company is schedule to be held on Saturday, 04th September 2021 at 11.30 a.m. through VC/OAVM without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act 2013. ('the Act') MCA circulars dated 5 May 2020 read with circulars dated 8 April 2020 and 13 April 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI circular dated 12 May 2020 and General circular No. 02/2021 dated 13 January 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 dated 15 January 2021 issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice convening the 32nd AGM.

In compliance with the said MCA circulars and SEBI circulars, electronic copies of the Notice of the 32nd AGM and Annual Report for FY2021 will be sent to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants. Members who have not registered their e-mail addresses and mobile

numbers, are requested to furnish the same to the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. Alankit Assignment Limited. The Notice of the 32nd AGM and Annual Report for FY2021 will also be made available on the Company's website at www.swissmilitaryshop.com, website

of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com. The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the AGM Additionally, the company is providing the facility of voting through e-voting

system during the AGM('e-voting'). Detailed procedure for joining the AGM and remote e-voting/ e-voting is provided in the notice of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM win be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. For SWISS MILITARY CONSUMER GOODS LIMITED

Anuj Sawhney Place: New Delhi

**Director and Manager** Date:31.07.2021 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

# TATA New Delhi -110055 DEMAND NOTICE

Contact Address: 7th Floor Videocon Tower, Jhandelwalan Extension.

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules"). 1. PARDEEP KUMAR,

MRS. SUGAN RANI, 3. MRS. CHANDER KALA.

I. M/S TEJUS INFRA. Through its Proprietor,

ALL R/O HOUSE NUMBER 29, ADARSH NAGAR, GANDHI CHOWK, SONIPAT, HARYANA- 131001

Dear Sir/Madam. A sum of Rs.46,78,623/- (Rupees Forty Six Lakhs Seventy Eight Thousand Six

Place: New Delhi

Date: 01.08.2021

New Delhi

Hundred and Twenty Three Only) is due to the Tata Capital Financial Services Ltd (hereinafter referred as "TCFSL") in Loan Account No. 7658101 & 8920068 as on 28.07.2021 with interest under the Home Equity (LAP) loan granted to you by TCFSL on 30.07.2017. In spite of our repeated requests, you have not paid any amount towards the amount outstanding in your account which has been classified as N P A Account on 08.12.2020. As per RBI guidelines pursuant to your default in repaying TCFSL's dues. Myself, exercising the powers of the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd, in pursuance to the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 had issued a notice dt: 28.07.2021 under Section 13 (2) of the aforementioned Act calling upon you to discharge the said debt amounting Rs.46,78,623/- with future interests and costs within 60 days of the notice, failing which the TCFSL shall exercise all or any of the rights detailed u/ Sec 13(4) of the above Act including enforcement of the security interest created by you in favour of the TCFSL over the property described below.

Schedule of the Property ALL THAT PIECE AND PARCEL OF HOUSE NUMBER 29, MEASURING 300 SQ. YARDS, SITUATED AT MUSALMAN PATTI, NIJAD TARANA CINEMA, ADARSH NAGAR, GANDHI CHOWK, SONIPAT, HARYANA- 131001 MORE DESCRIBED IN SALE DEED DATED 20.08.1981 IN FAVOUR OF SMT CHANDER KALA.

BOUNDED AS: NORTH: ROAD, SOUTH: PLOT NUMBER 26, EAST: PLOT NUMBER 28, WEST: PLOT NUMBER 30.

With a view to ensure efficacious service of the Demand Notice dated 28.07.2021, we are hereby effecting service of the said Notice vide the present publication. You are hereby called upon u/s 13(2) of the above Act to discharge the above mentioned liability within 60 days of this notice failing which the TCFSL will be exercising all or any of the rights u/ Sec 13(4) of the above Act. You are also put to notice that as per terms of Sec 13(13) of the above Act, you shall not transfer by sale, lease or otherwise the aforesaid secured assets.

Tata Capital Financial Services Ltd.

Authorised officer,

financialem epar.in

Date: 31st July, 2021

Place: Gurugram







Information Document

# बुजुर्ग दंपति पर हमले में चालक और परिचालक निलंबित

मुंबई, 31 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र राज्य सङ्क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के एक चालक और महिला परिचालक को मंबई के पालघर जिले में बस डिपो पर बुजुर्ग दंपति को कथित तौर पर परेशान करने के लिए सेवा से निलंबित कर दिया गया है। बुजुर्ग दंपित ने चालक को गड्डों से भरी सडक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए टोका था। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

शुक्रवार को हुई इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें, बस की परिचालक को वाडा बस डिपो में बस से उतरने के बाद दंपति का पीछा करते हुए और बुजुर्ग पुरुष को पीटते हुए देखा जा सकता है, जबिक बुजुर्ग महिला उन्हें बचाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। कुछ क्षण बाद बस चालक भी परिचालक के साथ आ जाता है और बजर्ग व्यक्ति को धक्का दे देता है. जिससे वह जमीन पर गिर जाते हैं।

जयपुर समेत

राजस्थान के कई

हिस्सों में भारी बारिश

राजस्थान के पूर्वी हिस्से के

कई भागों में पिछले 24 घंटों के

दौरान भारी बारिश दर्ज की गई।

प्रदेश के बारां के शाहबाद में

सबसे अधिक 304 मिलीमीटर

( अत्यंत भारी ) बारिश दर्ज की गई

है। मौसम विभाग ने इसकी

विभाग ने बताया कि राजधानी

जयपुर में शनिवार सुबह से रुक

रुक कर लगातार हो रही तेज

बारिश से राहगीरों को आवागमन

में कठिनाइयों का सामाना करना

पड रहा है। जयपुर, दौसा, टोंक,

सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर,

बारां में कई जगहों पर सडकें

जलमग्न हो गई, जबिक जोधपुर

मंडल के तहत गुडा-गोविंदी

मारवाड स्टेशन के बीच लगातार

पानी के बहाव के कारण जयपूर-

पिछले 24 घंटों के दौरान नागौर,

बारां, जयपुर, सवाई माधोपुर,

करौली, सीकर, अलवर, झुंझुनूं व

चूरू जिलों में कहीं कहीं भारी से

अति भारी बारिश दर्ज की गई।

पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश

बारां के शाहबाद में 304

मिलीमीटर और पश्चिमी राजस्थान

के डीडवाना, नागौर में 158

विभाग के अनुसार पिछले 24

घंटों के दौरान बारां में अधिकतम

304 मिलीमीटर बारिश, टोंक के

निवाई में 192 मिलीमीटर बारिश

महंगाई पर चर्चा

से भाग रही है

सरकार : प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी

वाडा ने शनिवार को केंद्र सरकार पर

कटाक्ष करते हुए कहा कि वह

महंगाई जैसे मुद्दों पर संसद में चर्चा

से भाग रही है। उन्होंने टवीट किया.

' वे 'आप आम कैसे खाते हैं' जैसे

सवालों के आदी हैं, इसलिए बढ़ती

महंगाई जैसे आमजनों को परेशान

करने वाले सवालों पर संसद में चर्चा

करने से डरते हैं।' पेगासस और कुछ

अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई

दिनों से संसद के दोनों सदनों में

गतिरोध बना हुआ है। उन्नीस जुलाई

से मॉनसून सत्र आरंभ हुआ था,

लेकिन अब तक दोनों सदनों की

जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के

लिए सरकार के तैयार होने के बाद

ही संसद में गतिरोध खत्म होगा।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने

पेगासस जाससी मामले पर तत्काल

चर्चा कराने की मांग की जबकि

सरकार ने इस मांग को खारिज करते

हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya Sharma

next date, purpose of case, orders and judgments

as well as other case information is available on

Publication Issued To: Pardeep Son Of Kanta Devi Son Of Sahib Singh Address -

Ward No 23, Ram Colony, Jind Haryana

Whereas it has proved to the satisfaction of

ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal

this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the

procedure is hereby issued against you with a

direction that you should appear personally

before this court on 17.09.2021 at 10.00 a.m.

or within 30 days from the date of publication

of this proclamation. Take notice that, in case

of default on your part to appear as directed

above the above said case will be heard and

determined as per law, in your absence, for

details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?

JMIC Ludhiana

trs= district\_notice&district=Ludhiana

www.readwhere.com

CNR NO: PBLD03-074888-2018

Next Date: 17-09-2021

कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है।

http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank

JMIC Ludhiana

Pardeep

विपक्षी दलों का कहना है कि

कार्यवाही बाधित रही है।

नई दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा)।

मिलीमीटर दर्ज की गई।

दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार

जोधपुर रेलवे ट्रैक बह गया।

जानकारी दी ।

जयपुर, ३१ जुलाई (भाषा)।

एमएसआरटीसी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शेखर चन्ने ने कहा, राज्य परिवहन निगम इस घटना के लिए माफी मांगता है। निगम ने तत्काल संज्ञान लिया है और संबंधित चालक व परिचालक को सेवा से निलंबित कर दिया है। इस घटना की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। ह्र एमएसआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार, चालक गोरखनाथ नागरगोजा और परिचालक शीतल पवार ने वाडा बस डिपो में उस समय दंपति के साथ मारपीट की, जब उन्होंने ड़ाइवर से पूछा कि उसने गड्ढों से भरी सड़क पर तेजी से बस क्यों चलाई।

इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए, चन्ने ने कहा कि परिवहन उपक्रम राज्य परिवहन कर्मचारियों द्वारा यात्रियों की पिटाई का समर्थन कभी नहीं करता। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

## TATA MUTUAL FUND

#### NOTICE

Unit holders of all the schemes of Tata Mutual Fund are requested to note that in accordance with Regulation 56 of SEBI (Mutual Funds) Regulation 1996 read with SEBI circular No SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018 the scheme wise Annual Reports for the financial year ended March 31, 2021 are hosted on the website www.tatamutualfund.com and www.amfiindia.com

Unitholders can submit a request for a physical copy or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof by calling on (022) 62827777 or by sending an email to service@tataamc.com or by writing to Tata Mutual Fund, Mulla House, Ground Floor, Fort, Mumbai - 400001.

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Corporate Identity Number: TAML - U65990-MH-1994-PLC077090, TTCL-U65991-MH-1995-PLC-087722

# संतुष्टि शॉपिंग परिसर, नई दिल्ली में दुकानों के आवंटन हेतु सूचना आमंत्रण

1. संतुष्टि शांपिंग परिसर न्यू विलिंगडन कैम्प, लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली— 110003 में दुकानों के आवंटन हेतु भारतीय राष्ट्रीय निवासियों से वायु अफसर कमांडिंग वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली द्वारा मोहर बंद आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

दुकान संख्या	आकार	दुकान संख्या	आकार
05	776 स्कवा फीट	11	206 स्कवा फीट
15	425 स्कवा फीट	20	204 स्कवा फीट
24 & 25	395 & 641 स्कवा फीट	27	480 स्कवा फीट
29	480 स्कवा फीट	31	546 स्कवा फीट
32	600 स्कवा फीट	35	395 स्कवा फीट
40	291 स्कवा फीट		

2. आवंटन की अवधि तीन वर्ष के लिए होगी । रक्षा शॉपिंग काम्पलेक्स (अनुरक्षण रखरखाव एवं प्रशा.) नियमावली 2006 के आलोक में दुकानें आवंटित की जाएगी।

3. दुकान संख्या 27,29,31,32 और दुकान संख्या 40 का आवंटन 01 नवम्बर 21 से जारी होगा ।

4. दुकान आवंटन हेतु निर्धारित शुल्क लाईसेंस शुल्क 160 / — प्रति वर्ग फीट अनुरक्षण शुल्क 60 / - प्रति वर्ग फीट एवं जी एस टी 18 प्रतिशत की दर से लगेगा। इसके अतिरिक्त पानी एवं बिजली का बिल खप्त के अनुसार लिया जायेगा। अनुरक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से

5. आवेदन पत्र 02 अगस्त 21 से 1000 बजे से 1630 बजे तक सभी कार्यदिवसों में 500 रूपये प्रति आवेदन (अप्रतिदेय) की दर से संतृष्टि शॉपिंग परिसर में प्राप्त किया जा सकता है। अरनेस्ट मनी डिपोजिट (ई एम डी ) की राशि एक महीने के लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा जो "संतुष्टि 412 वायु सेना स्टेशन नई दिल्ली" के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या आई सी आई सी आई, एच डी एफ सी एवं एक्सिस बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट / बैंक चेक के रूप में होना चाहिए । ई एम डी सहित पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 18 अगस्त 21 को 1500 बजे या इससे पहले तक संतुष्टि शॉपिंग परिसर के कार्यालय में जमा करना होगा । ई एम डी के बिना आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा

 आवंटित किये जाने वाले व्यक्तियों के आवंटन हेत् किसी भी स्पष्टीकरण हेत् दिनांक 16 अगस्त 21 तक सभी कार्यदिवसों में (सोमवार से शनिवार ) संतुष्टि शॉपिंग परिसर के कार्यालय में 1100 बजे से 1600 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्रों की संमीक्षा वायु सेना स्टेशन नई दिल्ली में 19 अगस्त 21 को किया जायेगा । आवेदक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है। किसी भी रूप में प्रतिनिधि को स्वीकार नही किये जाएगें । संतुष्टि शॉपिंग परिसर में 24 अगस्त 21 को 1100 बजे दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा । (आवश्यकता पड़ने पर)

7. अधिक जानकारी के लिए टेलिफोन नं. 011 20867237 या इमेल santushtishoppingcomplex123@gmail.com पर सम्पर्क करें।

8. बिना कारण बताए किसी दुकान को वापस लेने या किसी टेंडर या आवेदन को रदद करने / स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार वायू अफसर कमांडिग, वायुसेना स्टेशन, नई दिल्ली की होगी।

# किश्तवाड़ में चौथे दिन भी जारी रहा बचाव अभियान

जम्मू, ३१ जुलाई (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्म कश्मीर इकाई ने किश्तवाड जिले के उस गांव में राहत सामग्री भेजी है, जहां बादल फटने की घटना हुई थी। घटना के बाद लापता हए 20 लोगों का पता लगाने के लिए खोज एवं बचाव अभियान शनिवार को चौथे दिन भी चल रहा है।

भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रवींदर रैना और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने यहां पार्टी मुख्यालय से आटा, चावल, चीनी, तेल और दालों के अलावा कंबल, दवाएं और दैनिक इस्तेमाल के अन्य सामान से भरा एक मिनी ट्रक रवाना

रैना ने पत्रकारों से कहा. 'भाजपा कार्यकर्ताओं और सिविल सोसायटी ने मानवीय सहायता के तौर पर प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भेजी।' दचन तहसील के सुदूर होंजर गांव में बुधवार तड़के बादल फटने की घटना में सात लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए। इस घटना में 21 मकान, एक राशन भंडार, एक पुल, एक मस्जिद और गायों के लिए बने 21 शेड भी क्षतिग्रस्त हो गए।

गांव से नौ महिलाओं समेत कम से कम 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं और पुलिस, सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा स्थानीय स्वयंसेवक एक संयुक्त अभियान चला रहे हैं।

स्विस मिलिट्टी कंस्यूमर गुड्स लिमिटेड (जिसे पहले नेटवर्क लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन: L51100DL1989PLC034797 पंजीकृत कार्यालयः रुक्यू-३९, ओखला इंग्रस्ट्रियल एरिया,फेस ॥,नई दिल्ली- ११००२० दरभाष: 011-41067060 | ईमेल: Investor@swissmilitaryshop.com वेबसाइट: www.swissmilitaryshop.com

> वीडियो कांफ्रेंसिंग ( वीसी )/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाने वाली 32वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), एमसीए परित्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित परित्र दिनांक 5 मई, 2020 (सामृहिक रूप से ''एमसीए परिपन्न'' सन्दर्भित) तथा सेबी परिपन्न दिनांक 12 मई, 2020 एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड(सेबी) द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 एवं परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में सदस्यों के किसी कॉमन स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना 32वीं एजीएम आयोजित करने की सूचना में विनिर्दिष्ट प्रकार्यों के लेन-देन के लिए कम्पनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शनिवार, 4 सितम्बर, 2021 को 11.30 बजे पुर्वा, आयोजित की जानी निर्धारित है।

कथित एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में 32वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्टॉनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों के पास भेजी जायेंगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं।

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नम्बर पंजीकृत नहीं कराये हैं वे कृपया कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अर्थात अलंकित एसाइनमेंट लिमिटेड के साथ इन्हें पंजीकृत करा लें। 32वीं एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.swissmilitaryshop.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जायेगी।

कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त प्रस्तावों पर अपना मतदान करने के लिए अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई-वोटिंग'') उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान (''ई-वोटिंग'') की सुविधा उपलब्ध करा रही है। एजीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सुचना में उपलब्ध है। अधिनियम की धारा 103 के तहत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी। कृते स्विस मिलिटरी कन्ज्युमर गुड्स लिमिटेड

अनुज साहनी स्थान : नई दिल्ली तिथि : 31.07.2021 निदेशक एवं प्रबंधक

# हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड CIN: U74899DL1991PLC46774

पंजी. कार्यालय : 34, कम्युनिटी सेन्टर, वसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057 फोनः 011-49487150, फैक्सः 011-49487197, 011-49487198 ई-मेलः litigation@herofincorp.com ।। वेबसाईटः www.herofincorp.com

वितीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना रतदृद्वारा अधोलिखित को यह सूचना सर्व की जाती है:

।. मैसर्स सूरज एण्ड सन्स (कर्जदार), कार्यालय : 9 असलय हॉल, देहरादून, उत्तराखण्ड-24800<sup>:</sup> तथा साथ ही : 38–64/1 बकरावाला, निकट मानस मन्दिर, देहरादून, जी.पी., उत्तराखण्ड–24800′ 2. श्री आशीष कुमार शर्मा (सह-कर्जदार) निवासी 38-64/1 बकरावाला, निकट मानस मन्दिर,

देहरादुन, जी.पी., उत्तराखण्ड-248001

श्रीमती उर्मिला शर्मा (सह-कर्जदार), निवासी : 38-64/1 बकरावाला, निकट मानस मन्दिर, देहरादुन, जी.पी., उत्तराखण्ड-248001 ऊपर वर्णित ऋणधारकों ने एचएफसीएल के पक्ष में अधोलिखित सम्पत्ति को गिरवी रख कर एचएफसीएल से रु. 63,52,656/- ( रुपए तिरेसठ लाख बावन हजार छः सौ छप्पन मात्र) की साख सुविधा प्राप्त करने के लिए मै. हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड (यहां के बाद 'एचएफसीएल' वर्णित

में है, के साथ 28.02.2017 तथा 18.04.2017 को दो ऋण अनुबन्ध किए। सम्पत्ति निगम सं. 10/2 (पुराना सं. 9 एवं 22/10, राय बहादुर रोड, उग्रसेन रोड), एस्टले हॉल, देहरादून को निर्मित करने वाली भूतल पर दुकान का सम्पूर्ण भाग, माप 50.18 वर्ग मीटर जो पूर्णत

कवर्ड ( छत के अधिकार रहित) है तथा जिसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व : कॉमन वॉल तथा श्री सुखदेव की सम्पत्ति, साइड माप 50 फीट 3 इंच पश्चिम : कॉमन वॉल तथा श्री सुखदेव की सम्पत्ति, साइड माप 50 फीट 3 इंच

उत्तरः कॉमन वॉल तथा श्री ओम प्रकाश सुखीजा की सम्पत्ति, साइड माप 10 फीट 9 इंच दक्षिण : कॉॅंमन पैसेज तथा पार्किंग उसके बाद मेन उग्रसेन रोड, साइड माप 10 फीट 9 इंच उपरोक्त अचल सम्पत्ति को यहां के बाद ''प्रतिभृत परिसम्पत्ति'' कहा जाएगा। प्रतिभृत परिसम्पत्तियं को ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ ऋण के उपयुक्त पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने के लिए प्रतिभूति के रूप में एचएफसीएल के पास मार्टगैज किया गया है। लेकिन, ऋणधारक ने ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ ऋण के नियत पुनर्भुगतान में चूक की है। इस संदर्भ में वित्तीय परिसम्पत्तियों वे प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्भुगतान तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद ''सरफैर्स अधिनियम, 2002'' के रूप में वर्णित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत एचएफसीएल के पास उपरोक्त ऋणधारक के अंतिम ज्ञात उपलब्ध पते पर मांग सुचना भेजी गई है, लेकिन वह सुचना अन्डेलिवड़

इस प्रकाशन के द्वारा एक बार पुनः एचएफसीएल उपर्युक्त कर्जदारों को निर्देश देता है कि इस सूचन के प्रकाशन के साठ (60) दिनों के भीतर 30.06.2021 को देय रु. 69.66.834.67/- (रुपरे उनहत्तर लाख छियासठ हजार आठ सौ चौंतीस एवं सड़सठ पैसे मात्र) की सम्पूर्ण बकाया राशि क भुगतान करें अन्यथा एचएफसीएल ऋणधारक की प्रतिभृत परिसम्पत्ति का कब्जा तथा बिक्री करने तथा सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत उपलब्ध अन्य कोई कार्रवाई अथवा राहत सहित प्रतिभृत परिसम्पत्ति के विरुद्ध सरफैसी अधिनियम, 2002 के सभी या किसी भी प्रावधानों के अंतर्गत सर्भ प्रकार की आवश्यक कार्रवाई करेगा।

पुनः सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार एतद्द्वारा ऋणधारक, मार्टगैजर तथा सह–ऋणधारकों को चाहे जो भी हो. किसी भी रूप में उपरोक्त परिसम्पत्ति क बिक्री/पट्टा या व्यवसाय द्वारा बिक्री/अंतरण अथवा स्वत्व-त्याग के अधिकार से वंचित किया जात है तथा ऐसा करना उपरोक्त ऋण अनुबंध एवं अथवा सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों क

एतद्द्वारा आम जनता को भी सूचित किया जाता है कि वे किसी भी रूप में उपरोक्त प्रतिभृत परिसम्पत्ति का व्यवसाय न करें क्योंकि एचएफसीएल का उस पर प्रथम् तथा एक्स्क्लुसिव प्रभार

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

(रू. लाख में)

विद्यमान है। तिथि: 01.08.2021 प्राधिकृत अधिकार्र स्थानः देहरादून

# एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड सीआईएन : L74899HR1995PLC053860

पंजी. कार्यालय : दुधोला लिंक रोड, दुधोला, जिला पलवल-121102, हरियाणा

फोन : +91-1275-280111 (50 लाइन्स), फैक्स : +91-1275-280133, वेब : www.ace-cranes.com ई-मेल आईडी : cs@ace-cranes.com 30 जून, 2021 को समाप्त समाप्त तिमाही हेतु पृथक्कृत एवं समेकित अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

	विवरण	मृथक्कृत				समेकित			
str.		तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त
सं.		30.06.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2021 (लेखापरीक्षित)	30.06.2020 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2021 (लेखापरीक्षित)	30.06.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2021 (लेखापरीक्षित)	30.06.2020 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2021 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	32150.12	45737.29	10091.71	122700.91	32150.39	45738.24	10096.89	122715.39
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाम (कर, अपवाद तथा असाधारण मदों से पहले)	2623.77	5105.64	(430.67)	10847.84	2624.65	5079.31	(438.82)	10811.14
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ कर से पहले (अपवाद तथा असाधारण मदों के बाद)	2623.77	5105.64	(430.67)	10847.84	2624.65	5079.31	(438.82)	10811.14
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर, अपवाद तथा असाधारण मदों के बाद)	1931.44	3883.76	(421.65)	8015.93	1931.01	3857.43	(429.80)	7979.23
5.	कुल समावेशी आय (कर पश्चात)	1931.44	3959.73	(421.65)	8091.90	1931.01	3933.40	(429.80)	8055.20
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 2/- प्रत्येक)	2269.66	2269.66	2269.66	2269.66	2269.66	2269.66	2269.66	2269.66
7.	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रू. 2/- प्रत्येक का) 1. मूल :	1.70	3.42	(0.37)	7.06	1.70	3.40	100000000	Un (1995)
	2. तनकतः	1.70	3.42	(0.37)	7.06	1.70	3.40	(0.38)	7.03

टिप्पणियां :

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज(जों) में दाखिल किए गए 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही 🛭 हेत् विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त रूप है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज(जॉ) की वेबसाइट (www.nseindia.com, www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.ace-cranes.com) पर उपलब्ध है।

उपरोक्त वित्तीय परिणामों का पुनरीक्षण लेखापरीक्षा समिति द्वारा और अनुमोदन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा 31 जुलाई, 2021 को सम्पन्न उनकी संबंधित बैठक में किया गया है। वास्ते एवशन कंस्ट्रवशन इविवयमेंट लिमिटेड स्थान : फरीदाबाद विजय अग्रवाल

दिनांकित : 31 जुलाई, 2021 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक E-AUCTION SALE NOTICE

E-Auction for Sale of Assets of Woolways (India) Limited (in Liquidation) (Regd. Off.: A-2, Basement Front Side, East of Kailash, New Delhi 110065) Under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations framed thereunder, that the assets/properties in table herein below, will be sold by E-Auction through E-Auction platform: https://eauctions.org/ Date and Time of E-Auction

August 25, 2021 between 10:00 AM to 02:00 PM Last Date for submission of Last Date for submission of Bid Documents & EMD: August 21, 2021 between 10:00 AM to 04:00 PM Bid Document & EMD Inspection Date & Time From August 01, 2021 to August 21, 2021 between 10:00 AM to 04:00 PM Contact Person: Sajeve Bhushan Deora, Mobile: 9811903450

Reserve Price (Rs.) EMD Amount Lot-1: Inventory (Ready-made garments) Ready-made garments lying at Plot No. 217, Industrial Area-A, Ludhiana, Punjab Rs. 25.11 Lakhs Rs. 2.52 Lakhs 141003. The intending bidder can bid for one of more lots out of 15 lots (containing (for all lots and loose items.) (for all lots and loose items, 2000 quantity in each lot), and 1 lot of loose items (containing 1000 quantity) can be pro-rata for each lot) pro-rata for each lot).

bid on the basis of their count. Lot number are identified at the location... Lot- 2: Movable Properties (Plant & Machinery, Furniture & Fixtures and Miscellaneous Assets), situated and installed at Plot No.217, Industria Area-A, Ludhiana, Punjab 141003.

Movable Properties (Plant & Machinery, Furniture & Fixtures and Miscellaneous Refer Annexure- VI, Refer Annexure- VI, of E-Auction Process of E-Auction Process Assets) installed and situated at Plot No. 217, Industrial Area-A, Ludhiana, Information Document Information Document

Lot- 3: Movable Properties (Plant & Machinery, Furniture & Fixtures and Miscellaneous Assets), situated and installed at Plot No. D- 3, Textile Colony, Ludhiana, Punjab -141003. Movable Properties (Plant & Machinery, Furniture & Fixtures and Miscellaneous Refer Annexure- VI, Refer Annexure- VI, Assets) installed and situated at Plot No. D-3, Textile Colony, Ludhiana, Puniab of E-Auction Process of E-Auction Process

Immovable Asset: Assignment of leasehold rights of Land situated at Plot No. C-9, Rs. 44.65 Lakhs Rs. 4.50 Lakhs Block No. Part A. Punjab Apparel Park, Doraha GT Road, Village-Barmalipur, Tehsil-Paval, Distt, Ludhiana, Area; 2285 sq vds, Lease deed vide vasika No. 420 dated 27-05-2008 registered in the name of Woolways (India) Limited (now in liquidation). It is a vacant Plot. Lot-5: Immovable Assets (Freehold Land)

Lot- 4: Immovable Assets (Leasehold Land)

Date: 31.07.2021

Place: New Delhi

Immovable Asset: Freehold land situated at Village - Machhiwara, Hadbast No. -

Rs. 36.17 Lakhs Tehsil Machhiwara, District Ludhiana, Khevat No. 982/836, Khatauni No. 1080. Rs. 3.62 Lakhs Khasra No. 178//8/2/2 (0-10), 178//13 (7-10); Area: 4 Kanal. Security interest of Banks/Financial Creditors of the CD over all items of assets listed hereinabove was relinguished in favour of the liquidation estate of the CD.

Terms and Condition of the E-Auction are as under: This E-Auction Sale Notice is for information of the Intending Bidder(s), who intends to participate in the sale of assets/properties of Woolways (India)

Limited (In Liquidation) through E-Auction. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" through service provider, M/s Claim Bridge Technologies Private Limited (Auctioneer).

This E-auction Notice shall be read in conjunction with the E-Auction Process Information Document containing details of the Assets of the CD under E-Auction, online E-Auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, and General Terms and Conditions of the E-Auction Sale, which are available on the websites; www.woolways.com and https://eauctions.org/. The contact mobile number is +91 9811903450; Technical support can be contacted at +91 9873694065, and e-mail id for communications are, in woolways sbd@gmail.com and ankit@claim-bridge.com.

The Bid Form to be filled by the Intending Bidder for participating in E-Auction also provides the detailed terms and conditions of E-Auction, and the Intending Bidder is expected to read the Bid Form carefully and submit the Bid Form with the EMD before participating in the E-Auction. Sajeve Bhushan Deora Liquidato

Woolways (India) Limited (In Liquidation) IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00317/2017-2018/10581

Address: 606, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Email ID: in.woolways.sbd@gmail.com; sajeve.deora@deora.com Contact No.: +91 98119 03450

Information Document

स्विस मिलिट्टी कंस्यूमर गुड्स लिमिटेड (पूर्व में नेटवर्क सिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

पंजीकृत कार्यालय: W-39, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- II , नई दिल्ली - 110 020 सी आई एन : L51100DL1989PLC034797 ई-मेस आईडी: network.limited@gmail.com | वेबसाइट: www.networklimited.net

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही का अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम (रुपये लाखों में) विवरण समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष 30.6.2021 31.3.2021 31.3.2021 30.6.2020 ( अनंकेक्षित ) ( अंकेक्षित ) ( अनंकेक्षित ) ( अंकेक्षित ) 738.97 327.64 33.75 523.92 18.08 23.15 -6.86 2.56

परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) कर के बाद साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ/ (हानि) कर के बाद (साधारण मदों के बाद) -6.86 2.56 18.08 23.15 अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) इक्विटी शेयर पूंजी 982.97 982.97 982.97 982.87 आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मुल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित) आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (रु. 2/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं) (क) मूल 0.01 0.04 -0.01(ख) तरल 0.04 0.05 -0.010.01

टिप्पणी

1. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश की गई तथा 31.3.2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।

2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईटः www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाईट www.swissmilitaryshop.com पर भी

बोर्ड के आदेश से

स्विश मिलिटरी कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड के लिये

अनुज सॉहनी निदेशक

तिथि: 31.7.2021

स्थानः नई दिल्ली

#### अद्भृत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सीआईएन: L51503DL1985PLC020195

पंजीकृत कार्यालयः डी-15, पम्पोश एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 दुरभाषः +91-11-45210051, ई-मेलः adhbhut.ind@rediffmail.com वेबसाइटः www.adhbhutinfra.com

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु लेखापरीक्षित स्टैण्डएलोन वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश (रुपये लाख में

समाप्त वर्ष सं. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 ( अलेखापरीक्षित (लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित) ( लेखापरीक्षित (लेखापरीक्षित) 1 प्रचालनों से कुल आय 0.50 2.92 8.28 18.18 2 अवधि हेतु निबल लाभ/हानि (कर, अपवादित -7.06 -6.27 -6.88 -26.20 -26.56तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) 3 कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित -368.97 -11.32 -388.90 -898.32 -6.88तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) 4 कर पश्चात अविध हेतु निबल लाभ (हानि) (अपवादि -388.90 -898.32 -368.97 -11.32 -6.88 तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) 5 अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हे -368.97 -11.32 -898.32 -6.88 -388.90 लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आ (कर पश्चात) सहित] 6 प्रदत्त इक्विटी शेयर पुँजी (रु. 10/- प्रत्येक क 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 7 | आरक्षियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षी को छोड़कर) जैसा गत (527.25) (138.35) वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रु. 10/- प्रत्येक के) (स एवं असतत प्रचालनों हेत्) (अ) मूल -3.35-0.10-3.54(ब) डाइल्यटेड -3.35 -0.06 -0.10 -3.54-8.17

# वित्तीय परिणामों की टिप्पणी

1. उपरोक्त लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों की 30 जुलाई, 2021 को ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश की गई तथ बाद में 30 जुलाई, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये।

2. सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 की अपेक्षाओं के अनुसार सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये कम्पनी के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणमों की ऑडिट की है। ऑडिट रिपोर्ट्स में कोई सुधार नहीं किये गये हैं।

3. इन वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकन ('इंड ए एस') तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (यथ संशोधित) के विनियमनों के अनुसार तैयार किया गया है।

4. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त तत्स्थानीय तिमाही के आंकड़े सम्पूर्ण संबंधित वित्त वर्ष

तथा संबंधित वित्त वर्ष की 3री तिमाही तक तिथि तक वर्ष के आंकडे के बीच संतुलक आँकडे हैं। 5. सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 (3)(डी) के अनुसार परिसम्पत्तियों तथ

देयताओं तथा नगदी प्रवाह के विवरण का उदघाटन इन परिणामों का अभिन्न भाग है। 6. अपवादित मत रु. 362.70 लाख की परानी शेष राशि के राइट ऑफ का प्रतिनिधित्व करता है।

7. चूंकि, कम्पनी का केवल एक ही प्रचालन खंड है, अतः इंड एएस-108-प्रचालन खंड के अंतर्गत उद्घाटन लागू नहीं है।

8. उसे चालू अवधि के आँकड़ों से तुलनीय बनाने के लिये पूर्व अवधि के आँकड़े पुनर्समूंहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

9. प्रबंधन ने 31 मार्च, 2021 की तिथि को लिक्विडिटी तथा गोइंग कंसर्न परिकल्पना तथा परिसम्पत्तियों की वाहक मुल्य की गणना सहित कम्पनी पर कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिये आरोपित प्रतिबंध द्वारा हुई बर्बादी के संभावित प्रभाव क विचार किया है। ऐसी परिकल्पना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि किसी भी परिसम्पत्तियों के बाधित होने की संभावना नहीं है। कम्पनी महामारी की प्रकृति को देखते हुए भावी आर्थिक स्थितियों तथा व्यावसायिक प्रचालनों पर उसके

परिणामी प्रभाव की निगरानी करती रहेगी। 10. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाईटः https://adhbhutinfra structure.com तथा बीएसई की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

अद्भुत इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के लिये

अनुभव धाम पूर्णकालिक निदेशक

तिथि: 30.7.2021

स्थानः नई दिल्ली

DIN: 02656812